



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1931 (श0)  
(सं0 पटना 209) पटना, बुधवार, 27 मई 2009

सं0 ग्रा0वि0-7/उद्योग (स्था0-से0श0)-13/07-4077

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

22 मई 2009

**विषय :- उद्योग विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में हस्तांतरित 23 उद्योग केन्द्रों को कर्मियों एवं प्रशासनिक शक्तियों के साथ पुनः उद्योग विभाग में हस्तांतरण करने के संबंध में ।**

ग्रामीण विकास विभाग में ट्राईसेम प्रशिक्षण कार्यक्रम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप योजना थी, जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.1999 से समाप्त किया जा चुका है । ट्राईसेम प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उद्योग विभाग ने अपने संकल्प संख्या-80 दिनांक-08.01.04 द्वारा बिहार राज्य अवस्थित 23 उद्योग केन्द्रों के कर्मियों, बजट एवं प्रशासनिक शक्तियों के साथ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को हस्तांतरित किया गया । ग्रामीण विकास विभाग के अधीन स्थानान्तरित 23 उद्योग केन्द्रों की स्थापना, बजट शीर्ष एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आदि संबंधी सूचना परिशिष्ट-I पर संलग्न है ।

2. ग्रामीण विकास विभाग से ट्राईसेम प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 01.04.1999 से ही समाप्त हो चुका है एवं ग्रामीण विकास विभाग में इन 23 उद्योग केन्द्रों की उपयोगिता नहीं रह गयी है । उद्योग विभाग ही इन 23 उद्योग केन्द्रों का उपयोग पूर्व की भांति कर सकता है ।

3. ग्रामीण विकास विभाग के अधीन उपर्युक्त 23 उद्योग केन्द्रों को पुनः उद्योग विभाग में हस्तांतरण पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- (i) उद्योग विभाग के संकल्प संख्या-80 दिनांक-08.01.04 द्वारा उद्योग विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में हस्तांतरित सभी 23 उद्योग केन्द्रों को कर्मियों एवं प्रशासनिक शक्तियों के साथ पुनः उद्योग विभाग में हस्तांतरित किया जाय ।
- (ii) उपरोक्त निर्णय के आलोक में उद्योग विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में हस्तांतरित 23 उद्योग केन्द्रों को उनके कर्मियों एवं प्रशासनिक शक्तियों के साथ पुनः उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया जाता है ।

**आदेश:-**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा उसकी एक प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/ निगम/पषद/ प्राधिकार/स्वायत संस्थाओं, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अनूप मुखर्जी,  
प्रधान सचिव।

## परिशिष्ट - 1

उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभागीय केन्द्र जो ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित है, से संबंधित सूची

बजट शीर्ष/उपशीर्ष	क्र० सं०	केन्द्र का नाम	योजना/गैर योजना	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	2	3	4	5
2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-104-हस्तशिल्प उद्योग हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान, विपत्र कोड- 2851001040001	1.	गुडिया प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, पटना	गैर योजना (अस्थायी)	उप विकास आयुक्त
	2.	गुडिया प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, लोक नगर, जहानाबाद		
	3.	गुडिया प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, सहरसा		
	4.	गुडिया प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, भागलपुर		
	5.	मृणमय वस्तु प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, बेगूसराय		
	6.	सींग वस्तु प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, बेतिया, प० चम्पारण		
	7.	चाँदी, पीतल मछली वस्तु प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, हवेली खड़गपुर, मुंगेर		
	8.	बैत बॉस वस्तु उत्पादन केन्द्र, महुडर, नवादा		
	9.	मूज एवं बैत बॉस वस्तु प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, मनेर, पटना		
	10.	जूट एवं बैत बॉस वस्तु प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, अररिया		
	11.	जूट एवं बैत बॉस वस्तु प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र, सिंहेश्वर स्थान, मधेपुरा		
2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-	12.	आदर्श काष्ठ कर्मशाला, पूसा रोड, समस्तीपुर	गैर योजना (अस्थायी)	उप विकास आयुक्त

बजट शीर्ष/उपशीर्ष	क्र० सं०	केन्द्र का नाम	योजना/गैर योजना	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	2	3	4	5
0001-कर्मशाला तथा सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, विपत्र कोड- 2852801020001	13.	आदर्श काष्ठ कर्मशाला, मुजफ्फरपुर		
	14.	आदर्श काष्ठ कर्मशाला, छपरा (सारण)		
	15.	आदर्श काष्ठ कर्मशाला, हाजीपुर (वैशाली)		
	16.	आदर्श लौह कर्मशाला, आरा (भोजपुर)		
	17.	आदर्श लौह कर्मशाला, मुंगेर		
	18.	आदर्श लौह कर्मशाला, पूसा रोड, समस्तीपुर		
2852-उद्योग-80-सामान्य-003-औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण-0001-शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र, विपत्र कोड- 2852800030001	19.	ग्राम्य शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र, मसौढ़ी, पटना	गैर योजना (अस्थायी)	उप विकास आयुक्त
	20.	ग्राम्य शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा		
	21.	ग्राम्य शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र, बाराहाट, बांका		
	22.	ग्राम्य शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र, दाउदनगर, औरंगाबाद		
	23.	ग्राम्य शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)		

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अनूप मुखर्जी,  
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 209-571+100-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>